



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2012

फा. सं. 21013/1/2010-एलआरडी (खंड-IV) (ग).—

केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र में प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के दिनांक 9 जनवरी, 2008 के संकल्प सं. 21013/4/2007-एलआरडी में एतद्वारा संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त संकल्प में शीर्ष “(ग) अन्य सदस्यों” के अधीन, क्रमांक (V) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(V) श्री डी. बंधोपाध्याय, जीडी-89, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106।”

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (भूमि सुधार)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2012

F. No. 21013/1/2010-LRD (Vol. IV)(C).—The Central Government hereby amends the Resolution No. 21013/4/2007-LRD dated 9th January, 2008 in the Gazette of India, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources, namely :—

In the said Resolution under the heading “(C) Other Members”, for the serial number (V) and the entries relating thereto, the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

“(V) Shri D. Bandhopadhyay, GD-89, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106.”

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (LR)